



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 137) पटना, बुधवार, 4 अप्रील 2012

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

24 फरवरी 2012

सं0 निग/सारा-6-11/06-2148 (एस)—श्री प्रमोद कुमार कामत, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम को पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 3705 (एस)—सह-पठित ज्ञापांक 3706 (एस), दिनांक 03.04.06 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 6837 (एस), दिनांक 01.07.06 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 7207 (एस), दिनांक 14.06.07 द्वारा श्री कामत से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत उसे अस्वीकार योग्य मानते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 9642 (एस), दिनांक 16.08.07 द्वारा श्री कामत को निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दंड संसूचित किया गया:—

- (i) इनकी एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाय।
- (ii) इन्हें चेतावनी की सजा दी जाय जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्र्यी वर्ष 2005-06 में की जायगी।
- (iii) निलंबन अवधि में इन्हें देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि मानी जायेगी।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री कामत द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को विभागीय आदेश ज्ञापांक-10382 (एस), दिनांक 06.08.08 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् श्री कामत ने इस दंडादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या 2245/09 दायर की, जिसमें दिनांक 05.07.11 को पारित आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने दंडादेश को इस आधार पर निरस्त किया कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होने का कोई कारण द्वितीय कारण पृच्छा में नहीं दिया गया। साथ ही माननीय न्यायालय ने संचालन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद से पुनः आगे कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

तदालोक में श्री कामत के विरुद्ध अधिसूचना संख्या 9642 (एस)—सह—पठित ज्ञापांक 9643 (एस), दिनांक 16.08.07 द्वारा निर्गत दंडादेश को निरस्त किया जाता है तथा पुनः नये सिरे से संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षा करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जायगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप—सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 137-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>